



आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध (टोटल फायर बैन)

नियम क्या हैं?

टोटल फायर बैन की स्थिति में:

- ✗ खुले में आग नहीं जलाई जानी चाहिए
- ✗ सभी फायर परमिट स्थगित कर दिए जाते हैं। इसमें भस्मक, बारबेक्वू (बीबीक्वू) और स्मोर्कर्स शामिल हैं जो ठोस ईंधन जलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, काठकोयला या हीट बीड्स
- ✗ NSW Rural Fire Service के कमीशनर द्वारा जारी छूट के बिना खुले में सामान्य प्रयोजन की वेल्डिंग, ग्राइंडिंग या गैस कटिंग का काम नहीं किया जा सकता है।

टोटल फायर बैन की घोषणा कब की जाती है?

बुश फायर के खतरे की अवधि में, टोटल फायर बैन जारी करने का निर्णय आम-तौर पर अगले दिन के लिए दोपहर में लिया जाता है।

यदि मौसमी परिस्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं तो टोटल फायर बैन उस दिन भी जारी किया जा सकता है।

टोटल फायर बैन आम-तौर पर मध्यरात्रि को शुरू होता है और 24 घंटे के लिए रहता है।

यह पता लगाने के लिए कि टोटल फायर बैन की घोषणा किन क्षेत्रों के लिए की गई है:

- www.rfs.nsw.gov.au देखें
- www.bom.gov.au पर मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें
- बुशफायर सूचना जानकारी सेवा को 1800 679 737 पर फोन करें
- रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर मौसम संबंधी रिपोर्ट्स पर नज़र रखें।



NSW RURAL FIRE SERVICE



क्या मैं अभी भी BBQ कर सकता/सकती हूँ?

आप गैस या बिजली से चलने वाले BBQ का प्रयोग कर सकते/सकती हैं, परन्तु केवल तभी यदि:

- ✓ यह घर के 20 मीटर के दायरे में आवासीय संपत्ति में हो
- ✓ यह एक नामांकित पिकनिक क्षेत्र में हो और BBQ के लिए काउंसिल, नेशनल पार्क या स्टेट फोरेस्ट ने स्वीकृति दी हो।
- ✓ हर समय कोई उत्तरदायी वयस्क इसका संचालन करता हो
- ✓ BBQ के आसपास दो मीटर की ज़मीन से हर वो सामग्री हटा दी गई हो जो जल सकती हो
- ✓ आपके पास पानी की तात्कालिक और निरंतर सप्लाई उपलब्ध हो

क्या टोटल फायर बैन के दौरान कोई अपवाद होते हैं?

कई अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए छूट हो सकती है जैसे कि:

- आपातकालीन मूलभूत-सुविधा से जुड़े कार्य
- बी हाइव स्मोर्कर्स
- खनन संचालन
- गन्ने की खेती
- आतिशबाजी या समारोह में प्रयोग किए जाने के लिए आग जलाना
- होट एयर बैलून।

टोटल फायर बैन से अपवाद देने की जिम्मेदारी NSW RFS कमीशनर की होती है। हर बार जब टोटल फायर बैन की घोषणा की जाती है तो ये अपवाद NSW RFS की वेबसाइट पर विस्तृत किए जाते हैं।



टोटल फायर बैन के दिन आग जलाने से **\$132,000 तक** के जुर्माने लग सकते हैं और/या **14 साल की कारावास** हो सकती है।

इस मौसम में बुशफायर के लिए तैयारी करने हेतु आप क्या कर सकते/सकती हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए:



NSW Rural Fire Service की
वेबसाइट

www.rfs.nsw.gov.au
www.myfireplan.com.au



आपका सबसे करीबी NSW RFS
फायर कंट्रोल सेंटर:



बुशफायर सूचना सेवा

1800 NSW RFS (1800 679 737)